

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
आर्थिक प्रभाग
...

नई दिल्ली, दिनांक: 15 जून, 2021

प्रेस विज्ञपति

भारतीय विदेश व्यापार : मई, 2021

अप्रैल-मई, 2020-21* में भारत का समग्र निर्यात (संयुक्त रूप से पण्यवस्तु और सेवाएं) 98.29 बिलियन अमरीकी डॉलर अनुमानित किया गया है जिससे पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 56.94 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। अप्रैल-मई, 2021* में समग्र आयात 104.14 बिलियन अमरीकी डॉलर अनुमानित किया गया है जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 77.82 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

पण्यवस्तु अप्रैल-मई, 2021	सेवाएं अप्रैल-मई, 2021*	समग्र व्यापार = सेवाएं + पण्यवस्तु अप्रैल-मई, 2021* *
निर्यात 62.89 बिलियन अम.डा. (113.85%)	निर्यात 35.39 बिलियन अम.डा. (6.55%)	निर्यात 98.29 बिलियन अम.डा. (56.94%)
आयात 84.27 बिलियन अम.डा. (114.31%)	आयात 19.86 बिलियन अम.डा. (3.25%)	आयात 104.14 बिलियन अम.डा. (77.82%)
व्यापार घाटा 21.38 बिलियन अम.डा.	सेवाओं का निवल 15.53 बिलियन अम.डा.	व्यापार घाटा 5.85 बिलियन अम.डा.


* नोट: (i) सेवा क्षेत्र के लिए अप्रैल, 2021 के लिए आरबीआई द्वारा जारी आंकड़े उपलब्ध नवीनतम आंकड़े हैं। मई, 2021 के लिए आंकड़े अनुमानित हैं जिनका संशोधन आरबीआई की अगली प्रेस विज्ञपति के आधार पर किया जाएगा। (ii) ब्रैकेट का आंकड़ा विगत वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में वृद्धि दर है।

I. पण्यवस्तु व्यापार

निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)

- मई, 2020 के दौरान 19.05 बिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात की तुलना में मई, 2021 के दौरान निर्यातों का मूल्य 32.27 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा जो 69.35 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। रुपए के रूप में निर्यात मई, 2020 के दौरान 1,44,166.01 करोड़ रुपए की तुलना में मई, 2021 में 2,36,426.16 करोड़ रुपए मूल्य के हुए जिनसे 64.00 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। मई, 2019 की तुलना में मई, 2021 में निर्यात में डॉलर के रूप में 8.11 प्रतिशत की और रुपये के रूप में 13.53 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।
- वे प्रमुख वस्तुएं/वस्तु समूह जिनमें मई, 2020 की तुलना में मई, 2021 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई हैं अन्य अनाज (847.41%), फ्लोर क्वरिंग समेत जूट विनिर्माण (256.29%), पेट्रोलियम उत्पाद (227.25%), हस्तनिर्मित कालीन को छोड़कर हस्तशिल्प (192.9%), रत्न एवं आभूषण (179.13%), चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद (155.08%), मांस, दुग्ध और मुर्गीपालन उत्पाद (146.45%), मानव निर्मित यार्न/फैब्रिक्स/मेड अप्स इत्यादि (146.34%), कॉटन यार्न/फैब्रिक्स/मेड अप्स, हथकरघा उत्पाद आदि (137.93%), सभी कपड़ों के आरएमजी (114.21%), कालीन (107.85%), इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं (90.79%), सिरेमिक उत्पाद एवं ग्लासवेयर (81.57%), अभ्रक, कोयला एवं अन्य अयस्क, प्रसंस्कृत खनिज सहित खनिज (77.07%), इंजीनियरिंग वस्तुएं (53%), अनाज से तैयार वस्तुएं एवं विविध प्रसंस्कृत मर्चे (52.92%), काजू (38.33%), समुद्री उत्पाद (33.58%), लौह अयस्क (25.71%), प्लास्टिक और लिनोलियम (20.46%), जैविक और अजैविक रसायन (20.05%), तम्बाकू (15.11%), चावल (12.64%), तेल खाद्य (8.29%) तथा कॉफी (1.08%)।
- वे प्रमुख वस्तुएं/वस्तु समूह जिनमें मई, 2020 की तुलना में मई, 2021 में नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई हैं फल और सब्जियां (-7.1%), तिलहन (-7.09%), औषधियां एवं फार्मास्यूटिकल (-5.36%), चाय (-3.4%) तथा मसाले (-0.33%) है।
- अप्रैल-मई, 2021 की अवधि के लिए निर्यातों का संचयी मूल्य अप्रैल-मई, 2020 में रहे 29.41 बिलियन अमरीकी डॉलर (2,23,117.42 करोड़ रुपये) की तुलना में 62.89 बिलियन अमरीकी डॉलर (4,64,497.92 करोड़ रुपये) रहा, जिससे डॉलर के रूप में 113.85 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि (रुपए के रूप में 108.19 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि) दर्ज की गई। अप्रैल-मई, 2019 की तुलना में, अप्रैल-मई, 2021 में निर्यात में डॉलर के रूप में 12.54 प्रतिशत तथा रुपए के रूप में 19.40 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।
- गैर-पेट्रोलियम तथा गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात मई, 2021 में 23.97 बिलियन अमरीकी डॉलर का था जबकि मई, 2020 में इसका मूल्य 16.36 बिलियन अमरीकी डॉलर था जिससे 46.50 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि हुई। मई, 2019 की तुलना में मई, 2021 में गैर-पेट्रोलियम तथा गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात में 11.51 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। संगत अवधि 2020-21 में 25.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में, अप्रैल-मई, 2021 की अवधि के दौरान गैर-पेट्रोलियम तथा गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात 47.59 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा; जिसमें 87.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल-मई, 2019 की तुलना में; अप्रैल-मई, 2021 में गैर-पेट्रोलियम तथा गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात में 15.78 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

- मई, 2021 के दौरान आयातों का मूल्य 38.55 बिलियन अमरीकी डॉलर (2,82,453.56 करोड़ रुपये) रहा जिससे मई, 2020 में हुए 22.20 बिलियन अमरीकी डॉलर (1,67,977.68 करोड़ रुपये) मूल्य के आयात की तुलना में डॉलर के रूप में 73.64 प्रतिशत की वृद्धि और रुपये के रूप में 68.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मई, 2019 की तुलना में, मई, 2021 में आयात में डॉलर के रूप में (-) 17.42 प्रतिशत तथा रुपये के रूप में (-) 13.28 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-मई, 2021 की अवधि के लिए आयातों का संचयी मूल्य अप्रैल-मई, 2020 की अवधि में 39.32 बिलियन अमरीकी डॉलर (2,98,502.76 करोड़ रुपये) की तुलना में 84.27 बिलियन अमरीकी डॉलर (6,22,958.62 करोड़ रुपये) रहा जिससे डॉलर के रूप में 114.31 प्रतिशत तथा रुपये के रूप में 108.69 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-मई, 2021 में आयातों में, अप्रैल-मई, 2019 की तुलना में डॉलर के रूप में (-) 5.39 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि तथा रुपये के रूप में 0.48 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।
- विगत वर्ष के तदनुसूची महीने की तुलना में मई, 2021 में नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले आयातों के प्रमुख वस्तु समूह निम्नलिखित हैं :



अपरिष्कृत तेल एवं गैर तेल आयात :

- मई, 2021 के दौरान तेल आयातों का मूल्य 9.45 बिलियन अमरीकी डॉलर (69,255.28 करोड़ रुपये) रहा जो मई, 2020 में हुए 3.49 बिलियन अमरीकी डॉलर (26,380.50 करोड़ रुपये) की तुलना में अमरीकी डॉलर के रूप में 171.10 प्रतिशत अधिक (रुपये के रूप में 162.52 प्रतिशत अधिक) रहा। मई, 2019 की तुलना में, मई, 2021 में तेल आयात डॉलर के रूप में 24.94 प्रतिशत कम रहा तथा रुपये के रूप में 21.18 प्रतिशत कम रहा। अप्रैल-मई, 2020-21 के दौरान तेल आयातों का मूल्य 20.32 बिलियन अमरीकी डॉलर (1,50,224.04 करोड़ रुपये) रहा जो पिछले वर्ष की समनुरूपी अवधि में हुए 8.15 बिलियन अमरीकी डॉलर (61,917.72 करोड़ रुपये) की तुलना में अमरीकी डॉलर के रूप में 149.44 प्रतिशत अधिक (रुपये के रूप में 142.62 प्रतिशत अधिक) था। अप्रैल-मई, 2019 की तुलना में, अप्रैल - मई, 2021 में तेल आयात डॉलर के रूप में 15.86 प्रतिशत कम रहा तथा रुपये के रूप में 10.66 प्रतिशत कम रहा।

- इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मई, 2020 की तुलना में मई, 2021 में ग्लोबल ब्रेंट कीमतों (डॉ/बीबीएल) में 119.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- मई, 2021 के दौरान गैर-तेल मर्चों के आयातों का अनुमानित मूल्य 29.10 बिलियन अमरीकी डॉलर (2,13,198.28 करोड़ रुपये) रहा, जो मई, 2020 के 18.71 बिलियन अमरीकी डॉलर (1,41,597.18 करोड़ रुपये) की तुलना में अमरीकी डॉलर के रूप में 55.48 प्रतिशत अधिक (रुपये के रूप में 50.57 प्रतिशत अधिक) रहा। मई, 2019 की तुलना में, मई, 2021 में गैर-तेल आयातों में डॉलर के रूप में 14.64 प्रतिशत की कमी रही तथा रुपये के रूप में 10.37 प्रतिशत की कमी रही। अप्रैल-मई, 2021 में गैर-तेल मर्चों के आयातों का मूल्य 63.95 बिलियन अमरीकी डॉलर (4,72,734.58 करोड़ रुपये) रहा जो अप्रैल-मई, 2020 में रहे 31.17 बिलियन अमरीकी डॉलर (2,36,585.04 करोड़ रुपये) के आयातों की तुलना में डॉलर के रूप में 105.13 प्रतिशत अधिक (रुपये के रूप में 99.82 प्रतिशत अधिक) रहा। अप्रैल-मई, 2019 की तुलना में, अप्रैल-मई, 2021 में गैर-तेल आयातों में डॉलर के रूप में 1.49 प्रतिशत की कमी रही तथा रुपये के रूप में 4.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- मई, 2021 के दौरान गैर-तेल तथा गैर-स्वर्ण आयातों का मूल्य 28.42 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जिसमें मई, 2020 के गैर-तेल तथा गैर-स्वर्ण में रहे 18.64 बिलियन अमरीकी डॉलर के आयातों की तुलना में 52.48 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। मई, 2019 की तुलना में, मई, 2021 में गैर-तेल तथा गैर-स्वर्ण आयात में (-) 3.04 की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। अप्रैल-मई, 2020-21 में गैर-तेल तथा गैर-स्वर्ण आयातों का मूल्य 57.03 बिलियन अमरीकी डॉलर दर्ज किया गया जिससे अप्रैल-मई, 2020 के गैर-तेल और गैर-स्वर्ण में हुए 31.10 बिलियन अमरीकी डॉलर के आयातों की तुलना में 83.40 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-मई, 2019 की तुलना में, अप्रैल-मई 2021 में गैर-तेल तथा गैर-स्वर्ण आयात में 1.55 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

II. सेवा व्यापार

निर्यात (प्राप्तियां)

- आरबीआई की दिनांक 1 जून, 2021 की नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अप्रैल, 2021 में निर्यात 17.55 बिलियन अमरीकी डॉलर (1,30,676.37 करोड़ रुपये) था जिससे अप्रैल, 2020 की तुलना में डॉलर के रूप में 6.67 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। मई, 2021* के लिए सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य 17.85 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

आयात (भुगतान)

- आरबीआई की दिनांक 1 जून, 2021 की नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अप्रैल, 2021 में आयात 9.90 बिलियन अमरीकी डॉलर (73,697.69 करोड़ रुपये) था जिससे अप्रैल, 2020 की तुलना में डॉलर के रूप में 6.40 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। मई, 2021* के लिए सेवा आयात का अनुमानित मूल्य 9.97 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

III. व्यापार संतुलन

- **पण्यवस्तु** : मई, 2021 के लिए व्यापार घाटा मई, 2020 में रहे 3.15 बिलियन अमरीकी डॉलर के घाटे की तुलना में 6.28 बिलियन अमरीकी डॉलर अनुमानित था जिससे 99.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- **सेवाएं** : आरबीआई की दिनांक 1 जून, 2021 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अप्रैल, 2021 के लिए सेवा क्षेत्र में व्यापार संतुलन (अर्थात निवल सेवा निर्यात) 7.65 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। मई, 2021* में अनुमानित व्यापार संतुलन 7.88 बिलियन अमरीकी डॉलर है।
- **समग्र व्यापार संतुलन** : पण्यवस्तु तथा सेवाओं को एक-साथ रखते हुए, अप्रैल-मई, 2021* के लिए अनुमानित समग्र व्यापार घाटा अप्रैल-मई, 2020 में रहे 4.06 बिलियन अमरीकी डॉलर के अधिशेष की तुलना में 5.85 बिलियन अमरीकी डॉलर अनुमानित है।

*नोट: आरबीआई द्वारा सेवा क्षेत्र के लिए जारी किए गए नवीनतम आंकड़े अप्रैल, 2021 के लिए हैं। मई, 2021 का आंकड़ा एक अनुमान है जिसे आरबीआई की बाद की प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर संशोधित किया जाएगा।

पण्यवस्तु व्यापार

<u>निर्यात एवं आयात : (बिलियन अमरीकी डॉलर)</u>		
<u>(अनंतिम)</u>		
	मई	अप्रैल-मई
निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)		
2020-21	19.05	29.41
2021-22	32.27	62.89
प्रतिशत वृद्धि 2021-22/2020-21	69.35	113.85
आयात		
2020-21	22.20	39.32
2021-22	38.55	84.27
प्रतिशत वृद्धि 2021-22/2020-21	73.64	114.31
व्यापार संतुलन		
2020-21	-3.15	-9.91
2021-22	-6.28	-21.38
<u>निर्यात एवं आयात : (करोड़ रुपये)</u>		
<u>(अनंतिम)</u>		
	मई	अप्रैल-मई
निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)		
2020-21	1,44,166.01	2,23,117.42
2021-22	2,36,426.16	4,64,497.92
प्रतिशत वृद्धि 2021-22/2020-21	64.00	108.19
आयात		
2020-21	1,67,977.68	2,98,502.76
2021-22	2,82,453.56	6,22,958.62
प्रतिशत वृद्धि 2021-22/2020-21	68.15	108.69
व्यापार संतुलन		
2020-21	-23,811.67	-75,385.34
2021-22	-46,027.40	-1,58,460.70

सेवा व्यापार

<u>निर्यात एवं आयात (सेवाएं) : (बिलियन अमरीकी डालर)</u>	
<u>(अनंतिम)</u>	अप्रैल 2021
निर्यात (प्राप्तियां)	17.55
आयात (भुगतान)	9.90
व्यापार संतुलन	7.65

<u>निर्यात एवं आयात (सेवाएं) : (करोड़ रुपए)</u>	
(अनंतिम)	अप्रैल 2021
निर्यात (प्राप्तियां)	1,30,676.37
आयात (भुगतान)	73,697.69
व्यापार संतुलन	56,978.68
स्रोत: 1 जून, 2021 की आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति	
